



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 430 राँची, बुधवार

27 ज्येष्ठ, 1937 (श०)

17 जून, 2015 (ई०)

jkt; fuokpu vk; kx] >kj [k.M

आदेश

12 जून, 2015

संख्या: 03नि०-91/2011 रा०नि०आ० 1489 -- यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 क, सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने / विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने समयक सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिया कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदनों पर, (यदि कोई हो,) विचार करने के पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कि धारा 10क सहपठित, झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68 'क' के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित किया जाता है।

| Øekol | ftyk | fuokpu {k- | ule ,oairk | dkj.k |
|-------|-------------------|------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | if'peh fl gHke | XXII i OfI gHke@VksVks&12 | l jkst i [r] xke&d[upk] i [k.M&VksVks] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 2 | | XXII i OfI gHke@pkb[ckl k&14 | vat uh l ks] xke&vkp[i [k.M&pkb[ckl k1] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 3 | | XXII i OfI gHke@pkb[ckl k&14 | t[ek d[oz i kM[k] xke&Mks[jk] kb[i [k.M&pkb[ckl k1]ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 4 | | XXII i OfI gHke@pkb[ckl k&14 | ryl h eqM[jh] xke&e[e] i [k.M&pkb[ckl k1] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 5 | | XXII i OfI gHke@pkb[ckl k&14 | eatq n[ks] kb[xke&n[chl kb[i [k.M&pkb[ckl k1] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 6 | | XXII i OfI gHke@pkb[ckl k&15 | nk[nh noxe] xke&i Ei kM[k] i [k.M&pkb[ckl k 2]ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 7 | | XXII i OfI gHke@pkb[ckl k&15 | 'khyks l [Mh] xke&eVdegkr[i [k.M&pkb[ckl k2] | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea |

| | | | | |
|----|--|----------------------------------|--|--|
| | | | ftyk&i OfI gHkœ | vl Qy jgA |
| 8 | | XXII i OfI gHkœ@pkbçkl k&15 | I fjr k nœxe] xte&i gfu; k] i [k.M&pkbçkl k 2]ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 9 | | XXII i OfI gHkœ@pkbçkl k&15 | I kfo=h i g[rh] xte&rœpçhj] i [k.M&pkbçkl k 2]ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 10 | | XXII i OfI gHkœ@e>xkœ&23 | I jLorh fi xœpk] xte&VœVkdœVœ] i [k.M&e>xkœ ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 11 | | XXII i OfI gHkœ@txœukFki g&20 | ?ku'; ke dœMœ] xte&i krœgkrœ] i [k.M&txœukFki g]1] ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 12 | | XXII i OfI gHkœ@txœukFki g&20 | I kœk dœMœ] xte&i krœgkrœ] i [k.M&txœukFki g]1] ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 13 | | XXII i OfI gHkœ@txœukFki g&22 | d".kk fl œdq [kefu; kœ] xte&txœukFki g] i [k.M&txœukFki g] 2] ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 14 | | XXII i OfI gHkœ@txœukFki g&22 | tœk/s k fi xœpk] xte&xœfœj; k] i [k.M&txœukFki g] 2] ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 15 | | XXII i OfI gHkœ@txœukFki g&22 | I kgœ i g[rh] xte&i g[rh fnf?k; k] i [k.M&txœukFki g]2] ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 16 | | XXII i OfI gHkœ@pœ/kj i g&3 | vtœ i zœku] xte&jœMœ] i [k.M&pœ/kj i g]1] ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 17 | | XXII i OfI gHkœ@pœ/kj i g&3 | dœnœ dœtœ] xte&VœœkœVœky] i [k.M&pœ/kj i g]1] ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 18 | | XXII i OfI gHkœ@pœ/kj i g&3 | dkœjœ fl tœp] xte&œkbœ h<} i [k.M&pœ/kj i g]1] ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 19 | | XXII i OfI gHkœ@pœ/kj i g&3 | fnyhi dœkj œœMœ] xte&dœjœ] i [k.M&pœ/kj i g]1] ftyk&i OfI gHkœ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |

| | | | |
|----|-------------------------------|--|--|
| 20 | XXII i OfI gHkve@pØ/kjiġ&3 | if.Mr dękj egrkš xke&jksyKMHg] i [k.M&pØ/kjiġ1] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 21 | XXII i OfI gHkve@pØ/kjiġ&3 | Hkpusoj egrkš xke&ck?kekjk] i [k.M&pØ/kjiġ1] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 22 | XXII i OfI gHkve@pØ/kjiġ&3 | Hkpusojh egrkšxke&jktykMHg] i [k.M&pØ/kjiġ1] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 23 | XXII i OfI gHkve@pØ/kjiġ&3 | j?kpuinu izkku] xke&ckb] h<} i [k.M&pØ/kjiġ1] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 24 | XXII i OfI gHkve@pØ/kjiġ&3 | yfyr ekgu fxyok] xke&tWrk] i [k.M&pØ/kjiġ1] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 25 | XXII i OfI gHkve@pØ/kjiġ&4 | x.ksk rkrh] xke&fl yOkMH] i [k.M&pØ/kjiġ 2] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 26 | XXII i OfI gHkve@pØ/kjiġ&4 | i kšk eqMk] xke&/ked kb] i [k.M&pØ/kjiġ 2] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 27 | XXII i OfI gHkve@pØ/kjiġ&4 | c#.k uk; d] xke&tUrkycMk] i [k.M&pØ/kjiġ 2] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 28 | XXII i OfI gHkve@pØ/kjiġ&4 | l ehj dękj izkku] xke&nkrh] i [k.M&pØ/kjiġ 2] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 29 | XXII i OfI gHkve@[kvi kuh&13 | dęfnuh tkckš xk0&ekVdksMk] i [k.M&[kvi kuh] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 30 | XXII i OfI gHkve@>haci kuh&16 | tepk dękj] xke&tK/Mki kš[kj] i [k.M&>haci kuh] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 31 | XXII i OfI gHkve@>haci kuh&16 | tshQj ckyep] xke&dękgr] i [k.M&>haci kuh] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 32 | XXII i OfI gHkve@>haci kuh&16 | nadh fc#yh] xke&eMdegkr] i [k.M&>haci kuh] ftyk&i OfI gHkve | fuokpu 0; ; ka dh yškk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 33 | XXII i OfI gHkve@>haci kuh&16 | infeuh nsh] xke&tK/Mki kš[kj] | fuokpu 0; ; ka dh yškk |

| | | | | |
|----|--|----------------------------|---|--|
| | | | i [k.M>hdi kuh] f tyk&i OfI ghkue | nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 34 | | XXII i OfI ghkue@rkruxj&17 | mfeyk fr; j xte&cukgeVj i [k.M&rkruxj] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 35 | | XXII i OfI ghkue@rkruxj&17 | fdj.k dlp] xte&cMk dks rk] i [k.M&rkruxj] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 36 | | XXII i OfI ghkue@rkruxj&17 | l furk gkd nk] xte&ck# Mkxpk] i [k.M&rkruxj] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 37 | | XXII i OfI ghkue@ea>kjh&18 | dneorh fc#ok]xte&fdatjhfeatjh] i [k.M&ea>kjh] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 38 | | XXII i OfI ghkue@ea>kjh&18 | tenkj fc#ok] xte&i l/hfI ; k] i [k.M&ea>kjh] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 39 | | XXII i OfI ghkue@ea>kjh&18 | ug# 'k ukjk; .k uk; d] xte&Fkb] i [k.M&ea>kjh] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 40 | | XXII i OfI ghkue@ea>kjh&18 | eatkj fc#ok] xte&cjdM; k] i [k.M&ea>kjh] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 41 | | XXII i OfI ghkue@ea>kjh&18 | l k/kq pj.k fc#ok] xte&ekyhMj] i [k.M&ea>kjh] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 42 | | XXII i OfI ghkue@cnxk&2 | dksMs etMk] xte&M[c#] i [k.M&cnxk] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 43 | | XXII i OfI ghkue@cnxk&2 | t; idk'k i rhl] xte&udVh] i [k.M&cnxk] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 44 | | XXII i OfI ghkue@cnxk&2 | tku dksuxkMh] xte&ikMksj k] i [k.M&cnxk] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 45 | | XXII i OfI ghkue@cnxk&2 | tkgu ig rh] xte&dtpk] i [k.M&cnxk] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 46 | | XXII i OfI ghkue@cnxk&2 | ukjk; .k i g rh] xte&ck# dtpMh] i [k.M&cnxk] f tyk&i OfI ghkue | fuokpu 0; ; ka dh y[kk |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|---|--|
| | | | i [k.M&cnxk] ftyk&i OfI gHke | nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 47 | | XXII i OfI gHke@cnxk&2 | i [k.M&cnxk] ftyk&i OfI gHke i [k.M&cnxk] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 48 | | XXII i OfI gHke@cnxk&2 | ckyhjkedjkb] xte&MepjMhgk] i [k.M&cnxk] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 49 | | XXII i OfI gHke@cnxk&2 | ' ; ke xkxjkb] xte&udVh] i [k.M&cnxk] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 50 | | XXII i OfI gHke@cnxk&2 | frykkek egrk] xte&y{ehi kl] i [k.M&l ksqk]ft0&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 51 | | XXII i OfI gHke@l ksqk&5 | inekorh egrk]xte&xti g] i [k.M&l ksqk] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 52 | | XXII i OfI gHke@l ksqk&5 | jkuh egrk] xte&l jkl i ksk] i [k.M&l ksqk] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 53 | | XXII i OfI gHke@l ksqk&5 | ruqt k uk; d] xte&xqy#ok] i [k.M&xkbydj k] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 54 | | XXII i OfI gHke@xkbydj k&6 | edq dkk/kg] xte&fQfyx gka nk] i [k.M&xkbydj k] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 55 | | XXII i OfI gHke@xkbydj k&6 | jkuh ykxg]h] xte&fcyk] i [k.M&xkbydj k] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 56 | | XXII i OfI gHke@xkbydj k&6 | l hek gjk] xte&fØLrkuVksy] i [k.M&xkbydj k] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 57 | | XXII i OfI gHke@euksgj i g&9 | vkykd jksku nknsy] xte&fpm+ k] i [k.M&euksgj i g 2] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 58 | | XXII i OfI gHke@euksgj i g&9 | l kakeuh gjk] xte&euksgj i g] i [k.M&euksgj i g 2] ftyk&i OfI gHke | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea vl Qy jgA |
| 59 | | XXII i OfI gHke@euksgj i g&9 | l d; k cjt k] xte&dPNhgkrk] i [k.M&euksgj i g 2] | fuokpu 0; ; ka dh yskk nkf[ky djusea |

| | | | | |
|----|--|-----------------------------|--|--|
| | | | ftyk&iOfI gHkæ | vl Oy jgA |
| 60 | | XXII i OfI gHkæ@ukokeqMh&11 | ryl h pkrkËck] xte&dk/x<f i [k.M&ukokeqMh 2]ftyk&iOfI gHkæ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Oy jgA |
| 61 | | XXII i OfI gHkæ@ukokeqMh&11 | i [i k jkÅr] xte&egnh] i [k.M&ukokeqMh 2]ftyk&iOfI gHkæ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Oy jgA |
| 62 | | XXII i OfI gHkæ@ukokeqMh&11 | ejhp i jrh] xte&c# ckMf+k] i [k.M&ukokeqMh 2]ftyk&iOfI gHkæ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Oy jgA |
| 63 | | XXII i OfI gHkæ@ukokeqMh&11 | 'kgyk ; kl ehuj xte&egnh] i [k.M&ukokeqMh 2]ftyk&iOfI gHkæ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Oy jgA |
| 64 | | XXII i OfI gHkæ@ukokeqMh&11 | 'køeuh i jrh] xte&bVj ckyt kMh] i [k.M&ukokeqMh 2]ftyk&iOfI gHkæ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Oy jgA |
| 65 | | XXII i OfI gHkæ@ukokeqMh&11 | l ykpuk noh] xte&t/s k] i [k.M&ukokeqMh 2]ftyk&iOfI gHkæ | fuokpu 0; ; ka dh y[kk nkf[ky djusea vl Oy jgA |

jkT; fuokpu vk; Ør ds vkns k l §

(g0@&) अस्पष्ट

l fpo

jkT; fuokpu vk; kx]

>kj [k.M] jkpbh A
